

DECLARATION OF WINNERS


National School Safety e-Poster Competition on

MAKING LEARNING ENVIRONMENT SAFER



Convener

Shri Nakul Kumar Tarun
(Disaster Management Expert)
Director, Zone4Solution, India



<http://www.zone4solution.in>

भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में अग्रणी संस्था ज़ोन फॉर सौल्युशन द्वारा , 23 जुलाई, 2021(शुक्रवार) को स्कूल सुरक्षा पर चर्चा एवं स्कूली बच्चों की राष्ट्रव्यापी पोस्टर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया इस उपलक्ष्य पर देश भर के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे एवं स्कूल सुरक्षा पर बच्चों द्वारा बनाये रचनात्मक पोस्टर्स का अवलोकन कर विजेताओं की घोषणा की।

लगभग दो घंटे चले इस वेबिनार मे वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं यूट्यूब के माध्यम से देश एवं विदेशो से लगभग 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार राज्य ,श्री विजय कुमार चौधरी एवं ज़ोन फॉर सौल्युशन के निदेशक श्री नकुल कुमार तरुण ने पुरस्कार वितरण वेबिनार का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री विजय चौधरी ने प्रतियोगिता के सामायिक आयोजन हेतु ज़ोन फॉर सौल्युशन की सरहाना की एवं अपने संबोधन में उन्होंने महामारी की वजह से बंद हुए स्कूलों एवं विधार्थियों पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की तथा स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रभावी तरह से लागू किये जाने पर बल दिया श्री नकुल कुमार तरुण ने ज़ोन फॉर सौल्युशन की

और से सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं कहा की स्कूलों को बंद रख कर उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती इसके लिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

निर्णायक मंडल में एनडीएमए में सदस्य श्री कमल किशोर, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, दिल्ली स्थित बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. नितिन मलिक, ग्लोबल रेस्क्यू फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर एन सिंह, एसओएस हरमन जेमिनर स्कूल फरीदाबाद में प्रधानाध्यापिका सुश्री वंदना तोमर, गुरुग्राम स्थित इंपीरियल हेरिटेज स्कूल में प्राचार्य सुश्री नीलू शर्मा, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार, जोन 4 सॉल्युशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार शर्मा, इनवर्टिस विश्वविद्यालय उ०प्र०से असिस्टेंट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) अवधेश कुमार, फिलॉन्सर आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ मुक्ता गिरधर शामिल रहे।

जजों द्वारा जारी संयुक्त निर्णय में प्रथम पुरस्कार नीतू सोमानी, द्वितीय पुरस्कार नवी मुंबई के एपीजे खारगर स्कूल की सान्वी पंडित एवं तृतीय पुरस्कार रामजस प्राइमरी स्कूल से इहांवी दयाल ने प्राप्त किया जिन्हें प्रमाण पत्रों के साथ क्रमशः 5000, 3000 एवं 2000/- रुपये की धनराशि से सम्मानित किया गया तथा सभी अन्य प्रतियोगियों को प्रमाण प्राप्त जारी किए गए, सभी जजों विधार्थियों को अपने संक्षिप्त भाषण के माध्यम से स्कूल सुरक्षा से जुड़ने एवं भविष्य में ऐसे रचनात्मक कार्यों से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

श्री नकुल कुमार ने स्कूलों की सुरक्षा के लिए सारगर्भित प्रयासों के लिए सभी साथ आने का आव्हान करते हुए वेबिनार का समापन किया।

आमंत्रित मुख्य अतिथि, सम्मानित जजों एवं गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों आदि के धन्यवाद के साथ वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।।